

जिला जनसम्पर्क कार्यालय

जिला रायपुर

समाचार

सोशल साइट्स पर बिरगांव नगर निगम के कोरोना संक्रमितों के संदर्भ में प्रचारित खबर भ्रामक

निगम आयुक्त ने प्रचारित खबरों का किया खंडन

रायपुर 08 अगस्त 2020/ कोरोना संक्रमण से बचाव व नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम के सहयोग से बिरगांव में प्रतिदिन कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रावाभाटा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरला में अस्थाई तौर पर रोजाना परीक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वार्डों में भी अस्थाई कैंप लगाकर टेस्ट किया जा रहा है। इसी कड़ी में 8 अगस्त को निकाय क्षेत्र में 3 शिविरों के माध्यम से 184 व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट किया गया। इसमें से 09 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 8 व्यक्ति बिरगांव नगर निगम क्षेत्र से तथा एक व्यक्ति कारा पंचायत क्षेत्र से हैं।

इस संबंध में विभिन्न सोशल साइट्स में यह प्रचारित किया जा रहा है कि बिरगांव में कोरोना परीक्षण के बाद कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को यह जांचे बिना की घर होम आइसोलेशन के उपयुक्त है कि नहीं, घर में रहने कह दिया गया है। इसका खंडन करते हुए बिरगांव निगम आयुक्त श्री श्रीकांत वर्मा ने कहा कि यह बेबुनियाद और मनगढ़ंत है बिरगांव में आज 85 नहीं बल्कि 184 लोगों का टेस्ट किया गया है, जिसमें से केवल 09 व्यक्ति ही पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से केवल 08 व्यक्ति नगर निगम बिरगांव क्षेत्र से तथा एक व्यक्ति कारा ग्राम पंचायत क्षेत्र से संबंधित है। इस संबंध में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को घर पर रहने को कह दिया गया यह भ्रामक है जबकि सभी कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की सूचना स्वास्थ्य संचालनालय को दे दी गई है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए नियत अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। यह भी ज्ञात हो कि नगर निगम बिरगांव क्षेत्रान्तर्गत पाए गए सभी कोरोना संक्रमितों को निर्धारित अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती किया गया है। आज तक किसी भी कोरोना मरीज को होम आइसोलेशन पर नहीं रखा गया है। सभी कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को निर्धारित अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है।